

॥ करो न विघ्न सब दूर सालासर वाला ॥

करो न विघ्न सब दूर, ओ सालासर वाला करो न विघ्न सब दूर ।

सालासर थारो भवन विराजे, झालर शंख नंगारा बाजै ।

द्वारे थारै नोपत बाजै, ओ चढ़ता है घृत सिंदूर ॥ सालासर वाला ॥

थे बजरंगी हो रणमण्डल, मोटे पांव भूजा बल दंगल ।

दानव मार के कर दिया खण्डन, ओ कर दिया चकनाचूर ॥ सालासर वाला ॥

रामचंद्र जी के सार दिए काजा, समदर ऊपर बाँध दिए पाजा ।

रावण सरीखा मार दिए राजा, मुखड़े से बरसै है नूर ॥ सालासर वाला ॥

बालाजी ने सभी मनावे, मन इच्छा भोजन फल पावै ।

बदरीदास बिरमण गावै, देवोजी विद्या भरपूर ॥ सालासर वाला ॥

बोलो सच्चे दरबार की जय...

पवन सूत हनुमान की जय...

बोल नाथ जी महाराज की जय